



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 27, बुधवार, शके 1941-सितम्बर 18, 2019
Bhadra 27, Wednesday, Saka 1941-September 18, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 09, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9584 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Gajsinghpur has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Gajsinghpur. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

By Order,

Ujjwal Rathore,

Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगरपालिका गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर (राज)

प्रपत्र क

क्रम संख्या	वार्ड	वार्डों के सीमांकन का विवरण
01	01	उत्तरी-पश्चिमी मंडी सीमा पत्थर नम्बर 211/233 से दक्षिण की तरफ चलते हुए कोआपरेटिव मील, जलदाय विभाग, छात्रावास को शामिल करते हुए मंडी सीमा पर दक्षिण की तरफ चलते हुए दक्षिणी-पश्चिमी मंडी सीमा के पत्थर संख्या 239 तक । यहां से पूर्व की तरफ चलते हुए रेलवे लाईन तक । यहां से उतर की तरफ चलते हुए रेलवे फाटक तक । रेलवे फाटक को क्रॉस कर पूर्व की तरफ चलते हुए नगरपालिका पुस्तकालय एवं व्यापार मंडल कार्यालय के पूर्वी-दक्षिणी कोणे तक । यहां से उतर की तरफ चलते हुए नगरपालिका पुस्तकालय उत्तरी दिवार के मध्य तक । यहां से उतर की तरफ चलते गौरव पथ को क्रॉस कर A/16 को छोड़ते हुए K/5 को सम्मिलित करते हुए इसके उत्तरी-पूर्वी कोणे से पूर्व को चलते हुए गुरुनानक नगर को शामिल करते हुए उत्तरी मंडी सीमा तक । यहां से पश्चिम की तरफ चलते हुए उत्तरी-पश्चिमी मंडी सीमा पत्थर नम्बर 211/233 तक ।
02	02	रेलवे फाटक से दक्षिण की तरफ चलते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, रेलवे क्वार्टर को शामिल करते हुए रेलवे लाइन के साथ-साथ दक्षिण की तरफ चलते हुए

		दक्षिणी मंडी सीमा तक । यहां से पूर्व की तरफ मुड़ते हुए डिफेंस रोड को क्रॉस कर सुगना देवे सांसी के मकान को छोड़कर डिफेंस रोड पर उतर की तरफ चलते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा को छोड़कर डाकघर को शामिल करते हुए इसके पश्चिमी-दक्षिणी कोणे पूर्व की तरफ चलते हुए अमरजीत सिंह, चरणजीत सिंह पि0 परमजीत सिंह के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से गौरव पथ पर चलते हुए पुस्तकालय के सामने डोगरमल गुप्ता के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-उतरी कोणे से पश्चिम को चलते हुए रेलवे फाटक तक।
03	03	गुरुद्वारा सिंह सभा के उतरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ डिफेंस रोड पर चलते बाबू जगजीवन राम सामुदायिक केंद्र को छोड़कर इसके उतरी-पश्चिमी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए गुड्डी देवी नायक के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के दक्षिणी पूर्वी कोणे से उतर की तरफ गौरव पथ पर चलते गुरुद्वारा सिंह सभा के पूर्वी-उतरी कोणे तक । यहां से पश्चिम की तरफ चलते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा के उतरी-पश्चिमी कोणे तक ।
04	04	बाबू जगजीवन राम सामुदायिक केंद्र को शामिल करते हुए इसके उतरी- पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ डिफेन्स रोड पर चलते हुए सुगना देवी पत्नी श्री गनीराम सांसी के मकान को शामिल करते हुए इनके पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से मंडी सीमा पर पूर्व की तरफ चलते हुए श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री जैतराम के कब्जे को शामिल करते हुए यहां से उतर की चलते हुए विवाह स्थल को शामिल करते हुए गौरव पथ पर की तरफ चलते हुए सही राम के मकान को शामिल करते हुए मकान के पूर्वी-उतरी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए बाबू जगजीवन राम सामुदायिक केंद्र उतरी- पश्चिमी कोणे तक ।
05	05	सोहनलाल पुत्र श्री मंगतराम नायक के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से गौरव पथ पर दक्षिण की तरफ चलते हुए विवाह स्थल को छोड़ते हुए गुरदेव सिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह के कब्जे को शामिल करते हुए दक्षिणी मण्डी सीमा पर पूर्व की तरफ चलते हुए फूलाराम लुहार के मकान को शामिल करते हुए पूर्व की तरफ चलते हुए गंदे पानी के गढे तक। यहां से उतर की तरफ चलते हुए भंवरलाल नायक के मकान को शामिल करते हुए सामुदायिक शौचालय को शामिल करते हुए इसके पूर्वी-उतरी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए गौरव पथ को क्रॉस कर उदाराम नायक के घर को शामिल करते हुए इनके मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से उतर की तरफ चलते हुए मोडाराम नायक के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-उतरी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए सोहनलाल नायक के मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे तक।
06	06	किशनलाल भाट के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से गौरव पथ पर दक्षिण की तरफ चलते हुए पूर्णराम मिस्त्री के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पश्चिम-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए रामी देवी पत्नी श्री गंगाराम के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के

		पूर्वी-दक्षिणी कोणे से उतर की तरफ चलते हुए लाली देवी नायक के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के दक्षिणी-पश्चिमी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए गौरव पथ पर चेताराम भाट के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के प्लाट के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से उतर की चलते हुए सुरेन्द्र कौर पत्नी श्री नानकचंद के अहाता को शामिल करते हुए इनके अहाता के उतरी-पूर्वी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए किशनलाल भाट के मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे तक
07	07	नानकराम पुत्र श्री देवाराम के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ गौरव पथ पर चलते हुए सुभाषचन्द्र पुत्र श्री जीतराम की किरयाने की दूकान को शामिल करते हुए इनकी दूकान के उतरी-पूर्वी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए शांति देवी के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते हुए भोमाराम नायक के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के दक्षिणी-पश्चिमी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए गौरव पथ क्रॉस कर मलकीत सिंह मजहबी के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से दक्षिण की तरफ सीधा चलते हुए गंदे पानी के गढ़े को शामिल करते हुए दक्षिणी सीमा तक । यहां से पूर्व की तरफ चलते हुए चित्रकुटी धाम के मेन सड़क पर उतर की तरफ चलते हुए बीरबल राम पुत्र श्री भीखा राम की किरयाने की दुकान को शामिल करते हुए इनकी दुकान के पूर्वी-उतरी कोणे से पश्चिम के तरफ चलते हुए नानकचन्द पुत्र श्री देवाराम के मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे तक ।
08	08	विद्यादेवी पत्नी श्री मोहनलाल कुम्हार के मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से गौरव पथ पर दक्षिण की तरफ चलते हुए नानक कुम्हार के अहाते को शामिल करते हुए इनके अहाते के पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए गौरव पथ को क्रॉस कर नानकचन्द की किरयाने की दुकान को शामिल करते हुए चेताराम पुत्र श्री मनीराम ढोली के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से उतर की तरफ चलते हुए बलवीर पूनिया के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-उतरी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए विद्यादेवी पत्नी मोहनलाल कुम्हार के मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे तक ।
09	09	मान के मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते हुए बाबा रामदेव मंदिर को शामिल करते हुए इसके पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए मेघराम जांगिड की दुकान को शामिल करते हुए इनकी दुकान के दक्षिणी-पूर्वी कोणे से उतर की तरफ चलते हुए जिंदल क्लासेस को शामिल करते हुए इनके पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए जगसीर सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से उतर की तरफ चलते हुए तरसेम सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह सोनी के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-उतरी कोणे से पश्चिम को चलते हुए मान के मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे तक ।

10	10	<p>मैना देवी पत्नी श्री अर्जुन राम के मकान के उत्तरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते हुए रमेश कुमार पुत्र श्री मंगत राम के मकान के शामिल करते हुए इनके मकान के दक्षिणी-पश्चिमी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए रजनी देवी पत्नी श्री मगनाराम के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उत्तरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चित्रकुटी धाम वाली सड़क के मेन गेट के मध्य तक । यहां से चित्रकुटी धाम को शामिल करते हुए चित्रकुटी धाम व शमशान घाट को शामिल करते हुए दक्षिणी मंडी पर पूर्व की तरफ चलते हुए पूर्वी मंडी सीमा पत्थर संख्य 239 तक । यहां से उतर की तरफ चलते हुए मंडी सीमा पत्थर संख्या 237 तक । यहां से पश्चिम की तरफ सीधा चलते हुए पूर्वी मंडी फिरनी के पास दर्शना देवी पत्नी श्री जोगी राम के मकान को छोड़ते हुए इनके मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से फिरनी के साथ साथ दक्षिण की तरफ चलते हुए प्रेम कुमार शर्मा के मकान को छोड़ते हुए इनके मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए मैना देवी पत्नी श्री अर्जुनराम के मकान के उत्तरी-पश्चिमी कोणे तक ।</p>
11	11	<p>मेधराज खत्री के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उत्तरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते सोहन लाल पुत्र श्री गिडाराम सोनी के मकान तक । इनके मकान के पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए देवेन्द्र मोमी के मकान को शामिल कर इनके मकान के उत्तरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए किशन सोनी के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए पूर्वी मंडी फिरनी तक । प्रेम कुमार शर्मा के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से उतर की तरफ फिरनी के साथ-साथ चलते हुए दर्शना देवी पत्नी जोगी राम के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-उत्तरी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए मेधराज खत्री के मकान के उत्तरी-पश्चिमी कोणे तक ।</p>
12	12	<p>रेशम कामरा की दुकान के उत्तरी-पश्चिमी कोणे से गौरव पथ दक्षिण की तरफ चलते हुए रामनारायण चौधरी के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के दक्षिणी-पश्चिमी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए चन्द्रशेखर पुत्र श्री चन्द्रभान के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से उतर की तरफ चलते विनोद पासी के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-उत्तरी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए गौरव पथ क्रॉस कर डॉ.के.एल. मादनपोत्रा के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उत्तरी-पश्चिमी कोणे से उतर की तरफ चलते हुए सुदर्शन चावला के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-उत्तरी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए रेशम कामरा की दुकान के उत्तर-पश्चिम कोणे तक ।</p>
13	13	<p>गिरधारी लाल वधवा के मकान को शामिल करते हुए इनके उत्तरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते हुए आईडिया टावर को शामिल करते हुए इसके पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते गौरव पथ तक । यहां से गौरव पथ पर दक्षिण की तरफ चलते हुए चरणजीत गिल की दुकान को शामिल करते</p>

		हुए इनकी दुकान से पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए कुलभूषण जग्गा के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते हुए भगवानदास जुनेजा के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए गौरव पथ को क्रॉस कर हरबंस नागपाल के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से उतर की तरफ चलते हुए पदमपुर रोड को क्रॉस कर बलदेव सिंह छिम्पा के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-उतरी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए गिरधारी लाल वधवा के मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे तक ।
14	14	रिम्पी सोनी के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते हुए राजकुमार गिरधर के मकान को शामिल करते इनके मकान के पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए कमल मित्तल के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते हुए हरभगवान वधवा के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए आर.एम. स्कूल को शामिल कर इसके पूर्वी-दक्षिणी कोणे से दक्षिण की तरफ मंडी फिरनी के साथ-साथ चलते हुए दर्शना देवी पत्नी श्री जोगी राम के मकान को छोड़ते हुए इनके मकान के पूर्वी-उतरी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए पूर्वी मंडी सीमा तक । यहां से उतर की तरफ चलते हुए पदमपुर रोड तक । यहां से पश्चिम की तरफ चलकर रिम्पी सोनी के मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे तक ।
15	15	भीमसेन मितल के मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते हुए गुरदयाल सिंह हुण्डल के मकान को छोड़ते हुए इनके मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय को शामिल करते हुए इसके उतरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ गौरव पथ पर चलते हुए गर्ल्स स्कूल को शामिल करते हुए इसके दक्षिणी-पश्चिमी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए श्री कुन्दनलाल मिगलानी के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते हुए एएसआई नरेन्द्र पूरी के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए मदनलाल पुत्र श्री कर्मचन्द के मकान को शामिल कर इनके मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से उतर की तरफ चलते हुए पदमपुर रोड क्रॉस कर लाल स्कूल को शामिल करते हुए इसके दक्षिणी-पश्चिमी कोणे से पदमपुर रोड पर पूर्व की तरफ चलते हुए पूर्वी मण्डी सीमा तक। यहां से उतर की तरफ चलते हुए पूर्वी मण्डी सीमा पत्थर संख्या 235 तक। यहां से पश्चिम की तरफ सीधा चलते हुए भीखाराम लुहार के मकान को शामिल करते हुए व धानक धर्मशाला को छोड़कर इसके पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते हुए किशनलाल सुथार के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए भीमसेन मितल के मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे तक।

16	16	पुराने आर.एम स्कूल के उतरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते हुए राज कुमार सुखीजा के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के दक्षिणी-पश्चिमी कोणे से पश्चिम की तरफ मुड़ते हुए वेदप्रकाश बजाज के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से गौरव पथ पर दक्षिण की तरफ चलते हुए मितल फलोर मिल को शामिल करते हुए इनकी दुकान के पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पदमपुर रोड़ पर पूर्व की तरफ चलते हुए बद्रीशर्मा के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के दक्षिणी-पूर्वी कोणे से उतर की तरफ गौरव पथ पर चलते हुए भजन सिंह गिल के मकान को शामिल करते हुए पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए श्री गुरदयाल सिंह हुण्डल के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोणे से उतर की तरफ सतीश मितल के मकान को शामिल कर इनके मकान के उतरी-पूर्वी कोणे से पश्चिम को चलते हुए कमलजीत हुण्डल के मकान को शामिल कर इनके मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से उतर की तरफ गौरव पथ पर चलते हुए फकीरचन्द के मकान को शामिल कर इनके मकान के पूर्वी-उतरी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए पुराने आर.एम स्कूल की बिल्डिंग के उतरी-पश्चिमी कोणे तक।
17	17	श्री पृथ्वीराज शास्त्री के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से गौरव पथ पर दक्षिण की तरफ चलते हुए किशन जग्गा के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के दक्षिणी-पश्चिमी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए भजनलाल शर्मा के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के दक्षिणी-पूर्वी कोणे से उतर की तरफ चलते हुए मांगीलाल बिश्नाई के अहाता संख्या 32 एफ को शामिल करते हुए इसके पूर्वी-उतरी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए सोमेश पाठक के मकान को शामिल करते हुए इसके मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से उतर की तरफ चलते हुए श्री गोपाल सिंह के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पूर्वी-उतरी कोणे से गौरव पथ पर पश्चिम की तरफ चलते हुए श्री पृथ्वीराज शास्त्री के मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे तक।
18	18	शिव मन्दिर धानक समाज को शामिल करते हुए इसके उतरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते हुए अश्वनी कुमार के मकान को शामिल कर इसके पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए धानक धर्मशाला को शामिल कर पूर्व की तरफ सीधा चलते हुए पूर्वी मण्डी सीमा के पत्थर संख्या 235 तक। यहां से उतर की तरफ चलते हुए पत्थर संख्या 235 व 234 के मध्य तक। यहां से पश्चिम की तरफ सीधा चलते हुए पूर्वी मण्डी फिरनी को क्रॉस कर गोपाल तोला, सीस राम मेम्बर के मकान को शामिल करते हुए संजय कुमार पुत्र श्री मदनलाल बैंक कर्मी के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उतरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चलते हुए रुडी देवी दाई के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पश्चिम की तरफ चलते हुए शिव मन्दिर धानक समाज के उतरी-पश्चिमी कोणे तक।
19	19	उतरी मण्डी सीमा के पत्थर संख्या 208 व 207 के लगभग मध्य से दक्षिण की

		<p>तरफ चलते हुए हरीकिशन पुत्र श्री पदमाराम के मकान को शामिल करते हुए इनके मकान के उत्तरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ सीधा चलते हुए रमेश कुमार किशनाराम, मुरलीराम बैंक कर्मी के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ सीधा चलते हुए चिरंजी किराड़ के मकान को शामिल कर इनके मकान के पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ चलते हुए प्रकाश चन्द पुत्र श्री रिछपाल के मकान को शामिल कर इनके मकान के दक्षिणी-पूर्वी कोणे से उतर की तरफ चलते हुए राजकुमार पुत्र श्री रतीराम के मकान को शामिल कर इनके मकान के पश्चिमी-दक्षिणी कोणे से पूर्व की तरफ सीधा चलते हुए पूर्वी मण्डी फिरनी को क्रॉस कर सीधा चलते हुए पूर्वी मण्डी सीमा पत्थर संख्या 234 व 235 के मध्य तक। यहां से उतर की तरफ चलते हुए मण्डी सीमा के उत्तरी-पूर्वी कोणे पर मण्डी सीमा पत्थर संख्या 203/233 तक। यहां से पश्चिम की तरफ मण्डी सीमा के साथ-साथ चलते हुए उत्तरी मण्डी सीमा पत्थर संख्या 207 व 208 के मध्य तक।</p>
20	20	<p>उत्तरी मण्डी सीमा पत्थर संख्या 209 व 208 के मध्य से दक्षिण की तरफ सीधा चलते हुए गुरुनानक नगर को छोड़ते हुए A/16को सम्मिलित करते हुए इसकी उत्तरी-पश्चिमी कोणे से दक्षिण की तरफ चलकर गौरव पथ को क्रॉस कर नगरपालिका पुस्तकालय के उत्तरी दिवार के मध्य तक। यहां से गौरव पथ पर पूर्व की तरफ चलते हुए अर्बन स्कूल को शामिल कर इसके पूर्वी-दक्षिण कोणे से उतर की तरफ चलते हुए वाल्मिकी मन्दिर व भंवरलाल पुत्र श्री सहीराम के मकान को शामिल करते हुए मण्डी सीमा पत्थर संख्या 208 व 207 के मध्य तक। यहां से पश्चिम की तरफ चलते हुए उत्तरी मण्डी सीमा पत्थर संख्या 208 व 209 के मध्य तक।</p>

अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका गजसिंहपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।